

दुनिया रिझेगी रे मिठो बोल्या से

राम रिझाया थारी आत्मा रीझे, दुनिया रिझेगी रे मिठो बोल्या से,

घर में गाँठ हो ज्याय पर घर डोल्या से

आदर भाव गुणा से मोटा, नहीं करया कर देखो जी,
दुश्मन झुकज्या उनके आगे, तुरंत फुरत लेवे लेखो जी,
विष अमृत हो ज्याय मिठो बोल्या से,
घर में गाँठ हो ज्याय पर घर डोल्या से.....

खेत की खातिर बाड लगाई बाड खेत ने खावे जी,
पर हाथा कोई चीज मंगाई, बा पूरी कद आवे जी,
मनका विश्वास जाय पाछे तोल्या से,
घर में गाँठ हो ज्याय पर घर डोल्या से.....

मित्र करो तो राखो मित्रता, मित्र फल ना चाखो जी,
जे मित्र में अवगुण हो तो, परदे भीतर राखो जी,
दुनिया हँसेगी परदों खोल्या से,
घर में गाँठ हो ज्याय पर घर डोल्या से.....

भरम भरम में सब कोई भरम्या, भरम भेद न पायो जी,
मिनख जमारो बन्दा एलो मत खोवे, श्याम बड़ो जस गायो जी,
कर तेरो कल्याण सांचो बोल्या से,
घर में गाँठ हो ज्याय पर घर डोल्या से.....

जय श्री नाथजी की.....